




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 721]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 1999/अग्रहायण 5, 1921

No. 721]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 1999/AGRAHAYANA 5, 1921

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1999

का. आ. 1187(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ चवालीसवां संशोधन) नियम, 1999 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—
(क) "शहरी विकास मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 33 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
'34. शहरी आधारभूत संरचना से संबंधित आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के मामले।';
(ख) 'शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—
'6. शहरी आधारभूत संरचना से संबंधित मामलों को छोड़कर, आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के सभी मामले।'

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/99-मंत्रि.]

बी.के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 1999

S.O. 1187(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and Forty-fourth Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading “Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)”, after entry 33, the following entry shall be added, namely :—

“34. Matters of the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) relating to urban infrastructure.”;

(b) Under the heading “Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Mantralaya)”, after entry 5, the following entry shall be added, namely :—

“6. All matters relating to the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) other than those relating to urban infrastructure.”.

K. R. NARAYANAN

President

[F. No. 1/22/1/99-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.